



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 13—अगस्त 19, 2005 (श्रावण 22, 1927)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13—AUGUST 19, 2005 (SRAVANA 22, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. ए. 22012/1/2005-पीएमए--राष्ट्रपति जी, श्री पुलक चटर्जी, आई. ए.एस. (उ.प्र. : 74) को दिनांक 27 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से लेकर अगले आदेश होने तक प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी.के. राय, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून 2005

सं. पी.एफ.-1262(3)/जी एन-5492/ए एन-1/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री पी.डी.टी. आचारी, सचिव 30 जून, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.-1508(3)/जी एन-5493/ए एन-1/2005--अध्यक्ष महोदय 22400--24500 रु. के वेतनमान में अपर सचिव के पद पर कार्यरत श्री जॉन जोसेफ को 26000 रु. (नियत) के वेतनमान में लोक सभा सचिवालय के सचिव के पद पर 1 जुलाई, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.-2348(3)/जी एन-5494/2005 ए एन-1--अध्यक्ष महोदय, 18400--22400 रु. के वेतनमान में कार्यरत डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु, संयुक्त सचिव को 22400-525-24500/- रु. के वेतनमान में लोक सभा सचिवालय में अपर सचिव के ग्रेड में 1 जुलाई, 2005 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 जुलाई 2005

सं. पी.एफ.-1558(3)/जी एन-5497/ए एन-1/2005--श्रीमती सुनीता ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटेक्टॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. जीएन-4926 के क्रम में है।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

-----

सं. पीएफ-1370(3)/जीएन/5498एएन/1/2005--श्री जीवन कुमार जैन और श्रीमती सुरिन्दर मारवाह ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. जीएन-4884 के क्रम में है।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

-----

सं. पीएफ-1363(3)/जीएन-5499/एएन-1/2005--श्री नरेन्द्र कुमार जैन की कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि दिनांक 8.1.2005 से आगे बढ़ाकर 8.7.2007 तक कर दी गई है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. जीएन-4884 के क्रम में है।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

-----

सं. पीएफ-1375(3)/जीएन-5500/एएन-1/2005--श्रीमती विपिन सोनी की कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि दिनांक 8.1.2005 से आगे बढ़ाकर 8.9.2007 तक कर दी गई है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. जीएन-4884 के क्रम में है।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

#### अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. 12/6/2/2005-1--श्री के.एस. कृष्णन, नियंत्रक, एल.पी.एस.सी. ने द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम से अपने स्थानान्तरण के फलस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग, बैंगलूर में रु. 14300-400-18300/- के वेतनमान में निदेशक के पद का दिनांक 11.7.2005 (पूर्वाह्न) से कार्यभार ग्रहण किया है।

मो. इक्रमुल्ला, अवर सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. ए-12025/10/98-प्रशा.II--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के पद पर नियमित प्रोन्नति के लिए अन्य अधिकारी की अनुशंसा करने और अनुशंसित अधिकारी द्वारा दिनांक

12.07.05 (पूर्वाह्न) से कार्य ग्रहण करने को ध्यान में रखते हुए, श्री आर. सी. मीना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) (तदर्थ आधार पर नियुक्त) के पद से अपने अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के मूल पद पर-योजना आयोग में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 12.07.2005 से प्रत्यावर्तित किए जाते हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

-----

सं. ए-12025/10/98-प्रशा.II--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित होने पर दिनांक 12.07.05 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक योजना) के पद पर उनकी नियमित पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रेम सिंह की योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (पीएएमडी) के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 11.07.2005 (पूर्वाह्न) से समाप्त की जाती है और वे 11 जुलाई, 2005 की पूर्वाह्न से उनके मूल पद अनुसंधान अधिकारी (संचार) पर प्रत्यावर्तित किए जाते हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

(विधि साहित्य प्रकाशन)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. ए-12025/3/02-वि.सा.प्र.(प्र.)--श्रीमती सरस्वती विश्वनाथन को, विधि साहित्य प्रकाशन में प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि के समापन के परिणामस्वरूप तारीख 6 जुलाई, 2005 के अपराह्न से उन्हें अपने अधीक्षक (मुद्रण) के अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित किया जाता है।

2. राष्ट्रपति, श्रीमती सरस्वती विश्वनाथन, अधीक्षक (मुद्रण), विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को, तारीख 11 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से छह मास की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका सं. 2146/2004 के परिणाम के अधीन रहते हुए 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक नियुक्त करते हैं।

3. श्रीमती विश्वनाथन की उपरोक्त नियुक्ति, उन्हें प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक के ग्रेड में उनकी ज्येष्ठता के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं बनाएगी और न ही उनके द्वारा की गई सेवा को प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक के पद पर नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के लिए गणना में लिया जाएगा।

एम. दास., उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. 32013/1/98-प्रशा.IV(वि.का.)--इस विभाग की दिनांक 11.01.2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.06.2005 के कार्यालय ज्ञापन

सं. 5/16/2003-सी.एस.-II के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी, विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में श्री ए. जी. कुट्टी, निजी सचिव की विधि आयोग, विधि कार्य विभाग में एक नियमित रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31.12.2005 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित प्रोन्नति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही तदर्थ आधार पर की गई उनकी इस सेवा की गणना ग्रेड में वरिष्ठता के लिए अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

यशवन्त सिंह, अपर सचिव

सं. ए-32013/02/2003-प्रशा. IV (वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.06.2005 के का.ज्ञा. सं. 5/7/2003-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित चयन सूची वर्ष के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में शामिल किए जाने पर, उसी विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम और पदनाम	चयन सूची
सर्वश्री		
1.	एम. एल. चांदवानी, विधायी विभाग	2000
2.	जमीत सिंह, विधि कार्य विभाग	2002
3.	ए. सी. शर्मा, विधि कार्य विभाग	2002 (एक्सटेंडेड पैनल)
यशवन्त सिंह, अपर सचिव		

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. ए-32013/1/2005 प्रशा.-(I)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 95) की श्रीमती आर. जया को, उनके केन्द्रीय कार्यकाल की शेष अवधि के लिए 19 अप्रैल, 2005 से 20 दिसम्बर, 2005 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अपर सचिव

सं. ए-32013/1/2005 प्रशासन-(I)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 88) के श्री मुकेश पुरी को उनकी केन्द्रीय कार्य-काल की

शेष अवधि के लिए 01 जुलाई, 2005 से 13 दिसम्बर, 2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अपर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 05 जुलाई 2004

सं. 07/पी. बी.-I/2005--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य कैडर के ग्रेड-IV और साइफर कैडर के ग्रेड-II से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 01 जून, 2004 के कार्यालय आदेश संख्या क्यू/कैडर/584/1/2005 के अनुसार उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से भा.वि.से. (ख) के सामान्य कैडर के एकीकृत ग्रेड-II और III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	प्रतिनियुक्ति स्थान
श्री/श्रीमती/सुश्री			
1.	एन. लिंजी चेट्टी	18.05.2005	पी एफ (पी सी पूल)
2.	विक्की कक्कड़	18.05.2005	भारतीय उच्चायोग, ढाका
3.	देबाशीष चौधरी	18.05.2005	विदेश मंत्री का कार्यालय
4.	संजय शुक्ला	18.05.2005	भारतीय उच्चायोग, बुनई
5.	सुनील कुमार	18.05.2005	भारतीय दूतावास, वार्शिंगटन
6.	सुनील कुमार शर्मा	18.05.2005	भारतीय दूतावास, बगोट
7.	पी. मोहन	18.05.2005	एफ ई अनुभाग
8.	लक्ष्मी नारायण	18.05.2005	एस पी-I अनुभाग
9.	करण सिंह-II	18.05.2005	भारत का प्रधान कौंसुलावास, सेंट पीटर्सबर्ग
10.	जस्टिन सोरंग	18.05.2005	शिक्षा सैल
11.	जे. आर. करकट	18.05.2005	भारतीय उच्चायोग, क्वला लामपुर
12.	अनील कुमार	18.05.2005	भारतीय दूतावास, बर्न
13.	नायमन कोंगारी	18.05.2005	भारत का प्रधान कौंसुलावास, मांडले म्यामां
14.	वी. श्रीनिवासन	18.05.2005	

2. उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ब्रजबासी सरकार, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी-II)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2005

सं. डी-III/460/सी एफ-02/2005--भारत के राष्ट्रपति ने श्री रोहतास गोयल की नई दिल्ली में कौंगो गणराज्य के एक मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री रोहतास गोयल के कौंसली क्षेत्राधिकार में भारत का सम्पूर्ण राज्य होगा।

पी. पी. सीरकार, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2004

सं. 9/2005 (सं. 6/2356/2005/एचआरडी-1/2911)---कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 21/40/2004-सी.एस.1(ख) दिनांक 15 फरवरी, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रपति विदेश व्यापार महानिदेशालय में श्री आर. एस. बिष्ट को 4.3.2005 से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उप महानिदेशक, विदेश व्यापार तदर्थ नियुक्त करते हैं।

के. चन्द्रामती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2005

सं. 81 (फा. सं. ए.-38011/5/2005-प्रशा.1)---राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1967) के अधिकारी श्री ए. के. सिंह, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन 08 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. ए.-22011/1/2005-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान अधिकारी श्री सुमंत्र पाल को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 21 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2005

शुद्धि पत्र

सं. पी.एफ.जी. (2160)प्रशा.1/2005--इस विभाग के दिनांक 08 जुलाई, 2005 के समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव श्री बी. एस. सैथिल, आई.ए.एस. (के.एल. : 84) के कार्य ग्रहण की तारीख 06 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) पढ़ी जाए।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 2 अगस्त 2005

सं. 10/2005 (सं. 6/2131/97/एचआरडी-1/2890)---अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस कार्यालय के विदेश व्यापार विकास अधिकारी श्री खेम चन्द दिनांक 31 जुलाई, 2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

के. चन्द्रामती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. ए-19011/8/2000-मा. सं.-II--राष्ट्रपति, सुश्री स्वतंत्र कौर सेखों, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 74) को उर्वरक विभाग के संबद्ध कार्यालय अर्थात् उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ.आई.सी.सी.) में दिनांक 27.07.2005 के पूर्वाह्न से 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपर सचिव के रैंक में नियुक्त करते हैं।

राजेश अग्रवाल, उप सचिव

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2005

सं. ए-19011/9/2005-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती सतवंत रेड्डी भा. प्र. से (पंजाब : 71) को रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में 5 जुलाई, 2005 के अपराह्न से सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. ए-19011/3/2002-स्था.-I---कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/12/2005-ई.ओ.(एस.एम.-I) दिनांक 26.07.2005 के

अनुसरण में श्री रमेश इन्द्र सिंह, आई.ए.एस. (पंजाब : 74) को भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए 1 अगस्त, 2005 पूर्वाह्न से रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के संयुक्त सचिव के कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

एन. भट्टाचार्य, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2005

सं. ए-32015/1/98-प्रशा.--इस मंत्रालय की दिनांक 27 अप्रैल 2005 की सम संख्यांक अधिसूचना की निरंतरता में राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों (पी.ए.) को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में निजी सचिव के पद पर 1.07.2005 से 30.9.2005 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती तसनीम टी. फारदार
2. श्रीमती विभा अत्री

उपर्युक्त प्रोन्नति एकदम तदर्थ आधार पर की जा रही है और यह तदर्थ प्रोन्नति उन्हें नियमित प्रोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ प्रोन्नति को किसी भी समय रद्द करने और उन्हें आशुलिपिक ग्रेड 'सी' में लौटाने का अधिकार सरकार के पास आरक्षित है।

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2005

सं. 3/18/2004-स्था.-- राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.07.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/24/2005-सी.एस.-I के अनुसरण में श्री अनिल सुब्रमणियम को दिनांक 12 जुलाई, 2005 अपराह्न से खान मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव [केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस)] नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उक्त ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर्ण सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। सरकार इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त करने का अधिकार रखती है।

टी. एस. भाटिया, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. ए-19011/1/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एलांगोबम रॉबर्ट सिंह को 19.07.2005 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (के.स.स. ग्रेड-I) नियुक्त करते हैं।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.07.2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सी.एस.-I के अनुसार उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :--

- (i) उक्त तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहे अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।
- (ii) उक्त तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

एम. जयरामन, अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. ए-22011/1/2004-प्रशा. (पार्ट)--राष्ट्रपति, डॉ. एस. एन. उपाध्याय, सहायक निदेशक, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जुलाई, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं। उन्हें 01.08.2005 के पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किया जाता है।

एम. जयरामन, अवर सचिव

सं. ए-19011/4/98-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री आर. सी. सचदेवा, उपसचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जुलाई, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं। उन्हें 01.08.2005 के पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किया जाता है।

एम. जयरामन, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. ए-12022/1/2005-स्था.--राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में श्री पी. के. सरदार, निदेशक की मुख्य निदेशक के रूप में तदर्थ नियुक्ति को इसी संगठन में 1.8.2005 से छह महीने की अवधि अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मौ. मोनिरुज़मान, अवर सचिव

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. ए-12011/1/2005-स्था.I--राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में श्री एस. के. यादव, विकास अधिकारी को उसी संगठन में 26.07.2005 से आगामी 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रत्याशी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी इनमें से पहले हो रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में सहायक निदेशक के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. के. तेवतिया, उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-12011/1/2005-स्था. I--राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में श्री एच. एन. भार्गव, विकास अधिकारी को उसी संगठन में 26.07.2005 से आगामी से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रत्याशी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी इनमें से पहले हो रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में सहायक निदेशक के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. के. तेवतिया, उप निदेशक (प्रशा.)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. ए-01/14/2001-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक "बी" की नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्व-स्थाने पदोन्नति पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "सी" के रूप में 1 जुलाई, 2005 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री प्रसाद माली
2. डा. एच. बी. सिंह
3. श्रीमती इन्दु बाला पुरी
4. श्री एस. के. अग्रवाल
5. सुश्री रीटा गुप्ता
6. श्री बी. के. त्यागी
7. डा. नवीन वशिष्ठ

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-01/14/2001-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "डी" श्रीमती नमिता गुप्ता की नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्व-स्थाने पदोन्नति पर 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक "ई" के रूप में 1 जुलाई, 2005 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-01/14/2001-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "डी" श्री एस. एस. कोहली की नमनीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्व-स्थाने पदोन्नति पर 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक "एफ" के रूप में 1 जुलाई, 2005 से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. ए-19015/01/2003-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, श्री एस. एस. नाथन, वैज्ञानिक "बी" का 15 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2005

सं. ए-19013/02/2005-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वैज्ञानिक "ई 1" डा. बी. सी. गोयल को 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक "एफ" के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 26 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा नियमित उम्मीदवार के प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित अनुदेशों के अनुसार होगी।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2005

सं. ए-32013/8/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 2005 के आदेश संख्या 21/24/2005-सी.एस.-I के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) पर उनकी पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग की अनुभाग अधिकारी सुश्री कमला गर्ग को दिनांक 13 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पूर्णतः अस्थायी आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :-

1. तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकालीन तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
2. तदर्थ प्रोन्नति को इसके लिए कोई कारण बताए बगैर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एच. आर. जोशी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. ए-46011/15/2005-सी.एच.एस.-II--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप संवर्ग में वरिष्ठ-प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी डा. बी. सी. मिश्र ने अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर

सेवानिवृत्त होने के बाद, केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में अपर निदेशक के पद का कार्यभार दिनांक 31 मार्च, 2005 (अपराह्न) से छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

### कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. 27-2588/2005-स्था.-5--राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. (एम. एच. : 88) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 19.7.2005 से केन्द्र में उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 8.6.2008 तक या आगामी आदेशों तक इसमें से जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2005

सं. 19011/70/2005-स्था.-5 (भाग-II)--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में अपर आयुक्त (एन आर एम/आर एफ एस) डा. सूरजभान 31.7.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

सं. 19011/442/2005-स्था.-5--श्री भीम सेन, भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आई एस एस) के एन एफ एस जी अधिकारी जोकि वर्तमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक (कृषि संगणना) (14,300-400-18,300/- रु.) के रूप में कार्यरत हैं, अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर दिनांक 31.7.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त किया जाता है।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

सं. 19011/457/2005-स्था.-5--श्री डी. अमरनाथ, भारतीय आर्थिक सेवा (आई ई एस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी जोकि वर्तमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में 18,400-500-22,400/- रु. के वेतनमान में आर्थिक सलाहकार (विपणन) के रूप में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर दिनांक 31.7.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त किया जाता है।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

### विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. ए-19025/62/80-प्रशा.-1-- श्री एम. रत्नाकर, विपणन अधिकारी (ग्रुप-III), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 जून, 2005 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. के. चोपड़ा, अवर सचिव

### ग्रामीण विकास मंत्रालय

(पेय जल आपूर्ति विभाग)

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. ए-11013/18/2003-टी.एम.-I--राष्ट्रपति महोदय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् श्री कमल मजूमदार, सहायक सलाहकार (पी.एच.ई.) की 12000-375-16500 रु. के वेतनमान में उप सलाहकार (पी.एच.ई.) के पद पर हुई तदर्थ पदोन्नति की अवधि को 14.07.2005 से छः महीने की और अवधि के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किए जाने तक, जो भी पहले हो, अथवा अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

वाई. के. सूद, अवर सचिव

### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2005

मिसिल सं. 2-2/2005 प्रशासन (कैं.हि.नि.) डेस्क-II (भाषाएं)--राष्ट्रपति सहर्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की सहायक निदेशक श्रीमती हेमलता को उसी कार्यालय में उप निदेशक (भाषा) पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं।

हेमचंद, अवर सचिव

### युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2005

सं. पी.एफ./ए./46--प्रशासन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 2005 के का.ज्ञा. सं. 21/24/2005-सी.एस.-I के अनुसरण में राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) कैडर के श्री अनंत किशोर शरण, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 11.7.2005 (पूर्वाह्न) से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक जारी रहने का अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने का अथवा इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह तदर्थ नियुक्ति बिना कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

आर.एन. शर्मा, उप सचिव (प्रशासन)

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. ए-12026/2/95-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारी डॉ. एस.पी. शुक्ल को दिनांक 11.7.2005 पूर्वाह्न से रुपए 7500-250-12000/- (समूह 'ख' राजपत्रित) के वेतनमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति राजभाषा विभाग के का.ज्ञा. सं. 5/16/2004-रा.भा. (से.) दिनांक 31.3.2005 के अनुसरण में की जाती है।

एल.सी. मेहरा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अप्रैल 2005

सं. ए-32014/6/2004-प्रशा-II/प्रशा.-I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-"सी" आशुलिपिक श्री वी.के. नायर को 6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में तीन माह की अवधि के लिए 07.04.2005 से 06.07.2005 तक अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड-"ए" तथा "बी" (आमेलित)] के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्थानापन्न पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे उक्त अधिकारी को अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने, अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड-"ए" तथा "बी" (आमेलित)] ग्रेड में बरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव(प्रशा.I)

दिनांक 29 अप्रैल 2005

पीएफ-2791/प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री पदम सिंह, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, दूरसंचार विभाग दिनांक 30 अप्रैल, 2005 के अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 13 मई 2005

सं. ए 32014/12/2001-प्रशा-I--राष्ट्रपति, वर्ष 2001 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्रेणी की चयन सूची में वरिष्ठता कोटा के प्रति औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री ओ.पी. वर्मा का नाम शामिल किए जाने और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 28 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/28/2002-सी.एस-I के

तहत इस विभाग में नामित करने के फलस्वरूप, उन्हें दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में 6 मई 2005 की पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात करते हैं।

2. श्री ओ.पी. वर्मा दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2005

सं. ए-32014/15/2001-प्रशा-II/प्रशा.-I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "क" और "ख" (आमेलित) की वर्ष 2001 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में मूल रूप से नियुक्त आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री गिरिराज कुमार को इसी विभाग में 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के "क" और "ख" (आमेलित) ग्रेड में आशुलिपिक के पद पर दिनांक 25.04.2005 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

2. उक्त अधिकारी दो वर्षों तक परखाधीन होंगे।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 25 मई 2005

शुद्धि-पत्र

सं. ए-32014/15/2001-प्रशा-II/प्रशा. I--इस कार्यालय की दिनांक 16.5.2005 की अधिसूचना सं. ए-32014/15/2001-प्रशा-II/प्रशा. I में कर्मचारी के नाम श्री गिरि राज कुमार को श्री जी. राज कुमार पढ़ा जाए।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव प्रशा-I

सं. ए-33022/1/2004-प्रशा. I--श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव 31.03.2005 को अपना विस्तारित केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा कर लेने पर [(मूल कार्यकाल 09.08.1999 से 08.08.2004 तक जमा 01.07.2004 से 31.03.2005 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली में 30वें लोक प्रशासन में समुन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने के कारण विस्तार)], उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.05.1987 के का.ज्ञा. सं. 27(30)-ईओ/87(एसएम) की शर्तों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 से 24 मई, 2005 तक चौवन (54) दिनों के अर्जित अवकाश की मंजूरी दी जाती है। श्री अनिल कुमार इस विभाग में 25.05.2005 (पूर्वाह्न) से कार्य-भार से मुक्त हो जाएंगे।

छुट्टी की समाप्ति पर श्री अनिल कुमार, आईएसएस (एनजी : 76) आगामी तैनाती के लिए नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे।

यह अधिसूचना दिनांक 6 मई, 2005 की समसंख्यक पूर्ववर्ती अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

श्रीमती टी. कुन्दवी, अवर सचिव



दिनांक 29 मई 2005

सं. ए-32014/1/2004-प्रशा. I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "ग" के निम्नलिखित आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने इंगित किए गए अनुसार 3 माह की अवधि के लिए या नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (आमेलित)] के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दूरसंचार विभाग के संवर्ग में 6500-200-10,500 रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (आमेलित) के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	अवधि से	तक
1.	श्री आर. डी छद्गुली	01.04.2005	30.06.2005
2.	श्री बी वेनुगोपाल राव	08.03.2005	30.06.2005
3.	श्री एस. अनवारसन	08.03.2005	30.06.2005
4.	श्री गोपीचंद	08.03.2005	30.06.2005
5.	श्रीमती वीणा वर्मा	08.03.2005	30.06.2005
6.	श्री आर के शर्मा	08.03.2005	30.06.2005
7.	श्री विक्रम सोलिया	08.03.2005	30.06.2005
8.	श्रीमती सुनीता सिधु	08.03.2005	30.06.2005

2. उपर्युक्त नियुक्तियाँ पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इस नियुक्ति से अधिकारियों को उक्त ग्रेड में आमेलन या निजी सचिव ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (आमेलित) में वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 6 जून 2005

सं. ए-32014/6/2004-प्रशा.-II/प्रशा.-I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-"सी" आशुलिपिक श्रीमती सविता माथुर को 6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के संवर्ग में तीन माह की अवधि के लिए 04.06.2005 से 03.09.2005 तक अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "ए" तथा "बी" (विलयित)] के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्थानापन्न पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इससे उक्त अधिकारी को अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने, अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जून 2005

सं. 41-06/2001-प्रशा.I/IV--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध में सहायक बेतार सलाहकार, श्री दीनबंधु दास की कतर टेलीकॉम, दोहा, कतर में इंजीनियर, प्रीक्वैसी प्रबंधन के रूप में अन्यत्र सेवा प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 20.06.2001 और 21.05.2003 की समसंख्यक अधिसूचनाओं में उल्लिखित अवधि के क्रम में 01.07.2005 से 30.06.2007 तक बढ़ाते हैं।

2. दिनांक 25.09.2004 के कार्यालय आदेश में उल्लिखित प्रतिनियुक्ति की अवधि तदनुसार परिवर्तित हो गई है। प्रतिनियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

पी.के. रघुराम, अवर सचिव (प्रशा. IV)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 जुलाई 2005

सं. 1-4/2002-प्रशा. I (पार्ट)--राष्ट्रपति, श्री शांतनु कौसुल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 74) को 1 जुलाई 2005 के पूर्वाह्न से अपर सचिव के रैंक में प्रशासक, वैश्विक सेवा दायित्व निधि, दूरसंचार विभाग के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल.एस. नेगी, उप सचिव

सं. 1-18/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, डॉ. जे. श्रीधर शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 1971) को 1 जुलाई 2005 के पूर्वाह्न से सचिव, दूरसंचार विभाग और अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल.एस. नेगी, उप सचिव

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जुलाई 2005

सं. 1-3/2004-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.7.2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस-I के क्रम में, राष्ट्रपति सहर्ष वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार को डाक विभाग में सहायक महानिदेशक (सीएसएस का ग्रेड-I) के रूप में 10000-325-15200 रु. के वेतनमान में 19.7.2005 से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

जी.पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. 39-1/94-प्रशा.--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती अनिता कुमारी आशुलिपिक ग्रेड "ग" को, 01.07.2005 से 30.9.2005 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक कि कोई नियमित ठम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, 6500-200-10500 के वेतनमान में डाक विभाग के संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर स्थानापन्न तौर पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. यह पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति अथवा वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिलेगा।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से जारी किया गया है।

जी.पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. ए-12022/3/2000-प्रशासन--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सुशीला अनन्त को नागर विमानन मंत्रालय में दिनांक 12 जुलाई, 2005 पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान पर तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती सुशीला अनन्त की तदर्थ आधार पर पदोन्नति को अस्थायी रूप से इस ग्रेड में नियमित करने या नियमित नियुक्ति करवाने के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए या ग्रेड-1 में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2005

सं. ई(जीपी)2001/1/49--राष्ट्रपति महोदय, उत्तर रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के (उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत) ग्रुप "बी" अधिकारी

श्री ज्ञान प्रकाश (अ.जा.) की 14.01.2005 से भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में, वर्ष 2002-03 के पैनेल में, मूल रूप से नियुक्ति करते हेतु सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

एम. के. अग्रवाल, सचिव/  
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. ए-22011/2/2005-स्था.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री ए. के. अग्रवाल को दिनांक 14.7.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। यह तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बगैर कभी भी समाप्त की जा सकती है।

बी.एन. मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. ए-19012/1/2005-स्था. I--राष्ट्रपति श्री कंवर सिंह यादव (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) को दिनांक 4.7.2005 (पूर्वाह्न) से 7500-250-12000 रुपए के वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए.के. अग्रवाल, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 27th July 2005

No. A-22012/1/2005-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Pulok Chatterji, IAS (UP: 74) as Additional Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 27 July 2005 until further orders.

P. K. ROY, Under Secy.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th June 2005

No. PF. 1262(3)/GN-5492/AN-I/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri P. D. T. Achary, Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2005.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1508(3)/GN-5493/AN-I/2005.—The Speaker is pleased to appoint Shri John Joseph, Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 22400—24500/- as Secretary, Lok Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 26000/- (fixed) with effect from 1st July, 2005 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2348(3)/GN-5494/2005/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Dr. (Smt.) P. K. Sandhu, Joint Secretary in the scale of pay of Rs. 18400—22400/- to the grade of Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 22400-525-24500/- in the Lok Sabha Secretariat with effect from 1st July, 2005 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 7th July 2005

No. PF. 1558(3)/GN-5497/AN-I/2005.—Smt. Sunita has successfully completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer.

2. This is in continuation of Notification No. GN-4926 dated 10.04.2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1370(3)/GN-5498/AN-I/2005.—Shri Jiwan Kumar Jain and Smt. Surinder Marwaha have successfully completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer.

2. This is in continuation of Notification No. GN-4884 dated 13.01.2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1363(3)/GN-5499/AN-I/2005.—The probation period in respect of Shri Narinder Kumar Jain in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer has been extended beyond 08-01-2005 upto 08-07-2007.

2. This is in continuation of Notification No. GN-4884 dated 13.01.2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 1375(3)/GN-5500/AN-I/2005.—The Probation period in respect of Smt. Vipin Soni in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer has been extended beyond 08-01-2005 upto 08-09-2005.

2. This is in continuation of Notification No. GN-4884 dated 13.01.2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 29th July 2005

No. 12/6/2/2005-I.—Consequent on his transfer from Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram, Shri K. S. Krishnan, Controller, LPSC has assumed the charge of the post of Director, Department of Space, Bangalore with effect from 11.07.2005 (FN) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/-.

Md. IKRAMULLA, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 20th July 2005

No. A-12025/10/98-Adm. II.—In view of the recommendation by the UPSC for another officer for regular promotion as SRO (Educational Planning) and assumption of charge by the recommended officer w.e.f. 12.07.2005 (FN), Shri R. C. Meena stands reverted from the post of Senior Research Officer (Educational Planning) which was held by him on ad-hoc basis to his substantive post of Research Officer (Educational Planning) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. the forenoon of 12.07.2005.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/10/98-Adm. II.—Consequent on his regular promotion on the post of Senior Research Officer (Educational Planning) in the Planning Commission w.e.f. 12.07.2005 (FN) on being recommended by the UPSC, the term of ad-hoc appointment of Shri Prem Singh as Senior Research Officer (PAMD) in the Planning Commission stands terminated w.e.f. 11.07.2005 (FN) and he stands reverted to his substantive post of Research Officer (Communications) w.e.f. the forenoon of 11th July, 2005.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

(VIDHI SAHITYA PRAKASHAN)

New Delhi, the 20th July 2005

No. A-12025/3/02-VSP(A).—Consequent upon the completion of term of ad-hoc appointment as Publication-cum-Sales Manager in the Vidhi Sahitya Prakashan, Smt. Saraswati Vishwanathan is reverted to her substantive post of Superintendent (Printing) with effect from the afternoon of 6th July, 2005.

2. The President is pleased to appoint Smt. Saraswati Vishwanathan, Superintendent (Printing), Ministry of Law and Justice, Legislative Department, to officiate as Publication-cum-Sales Manager on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 for a period of six months w.e.f. the forenoon of the 11th July, 2005 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier and subject to the outcome of Civil Writ Petition No. 2146/2004 pending in the High Court of Delhi.

3. The above appointment of Smt. Saraswati Vishwanathan will neither bestow on her any claim for seniority in the grade of Publication-cum-Sales Manager nor the service rendered by her as such will count for her appointment in the post of Publication-cum-Sales Manager on regular basis.

M. DAS, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th July 2005

No. 32013/1/98-Admn. IV (LA).—In continuation of this Department's Notifications of even number dated 11.01.2005 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/16/2003-CS-II dated 28.06.2005, the Competent Authority is pleased to extend appointments of Shri A. G. Kutty, Private Secretary as Principal Private Secretary on ad-hoc basis against regular vacancy in Law Commission, Department of Legal Affairs of CSSS cadre of the Ministry of Law & Justice for a period upto 31.12.2005 or till a regular incumbents become available, whichever is earlier.

2. The above said ad-hoc appointment will not bestow on him any claim for regular promotion to the grade of PPS nor will the service rendered by him on ad-hoc basis will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

No. A-32013/02/2003-Admn. IV (LA).—Pursuant to Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/7/2003-C.S.II dated 23.06.2005, the President is pleased to appoint

the following Officers working as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in Legislative Department and Department of Legal Affairs of CSSS cadre of the Ministry of Law & Justice as Principal Private Secretary in same Departments on their inclusion in Principal Private Secretary Grade of CSSS for the Select List Years as mentioned against them:—

Sr. No.	Name & Department	Select List
	S/Shri	
1.	M. L. Chandwani, Legislative Department	2000
2.	Jameet Singh, Legal Affairs	2002
3.	A. C. Sharma, Legal Affairs	2002
		(Extended Panel)

YASHWANT SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING)

New Delhi, the 27th July 2005

No. A-32013/1/2005-AD. I.—The President is pleased to appoint Smt. R. Jaya, IAS (TN: 95), as Deputy Secretary in the Department of Personnel and Training with effect from 19th April, 2005 for the balance period of her central tenure which would be upto 20th December, 2005 or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/1/2005-AD. I.—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Puri, IAS (GJ: 88), as Director in Department of Personnel and Training with effect from 1st July, 2005 for the balance period of his central tenure which would be upto 13th December, 2008 or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 05th July 2005

No. 07/PB-I/2005.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers belonging Grade IV of General Cadre of IFS (B) and Grade II of Cypher Cadre to officiate Integrated Grade II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's OM NO. Q/CAD/584/1/2005 dated the 1st June, 2005:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion	Deployed at
	S/Shri/Ms.		
1.	N. Lingi Chetty	18.05.05	PF Section
2.	Vikky Kakkar	18.05.05	PC (Pool)
3.	Debashish Chaudhary	18.05.05	HCI, Dhaka
4.	Sanjay Shukla	18.05.05	EAM's Office
5.	Sunil Kumar	18.05.05	HCI, Brunei
6.	Sunil Kumar Sharma	18.05.05	E/I, Washington
7.	P. Mohan	18.05.05	E/I, Bogota
8.	Lakshmi Narain	18.05.05	FE Section
9.	Karan Singh-II	18.05.05	SP-I Section
10.	Justin Soreng	18.05.05	CGI, St. Petersburg
11.	J. R. Kerketta	18.05.05	Educational Cell
12.	Anil Kumar	18.05.05	HCI, Kuala Lumpur
13.	Naiman Kongari	18.05.05	E/I, Berne
14.	V. Shrinivasan	18.05.05	CGI, Mandalay Myanmar

2. The above named Officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against their names.

BRAJBASHI SARKAR, Admn. Officer (PB-II)

New Delhi, the 25th July 2005

No. D-III/460/CF-02/2005.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Rohtas Goel as Honorary Consul of the Republic of Congo in New Delhi with immediate effect.

The Consular jurisdiction of Mr. Rohtas Goel comprises the entire territory of India.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

#### MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th July 2005

No. 81: (F. No. A-38011/5/2005-Ad. I).—Shri A. K. Singh, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise: 1967), posted as Chairman, Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue retired voluntarily from Government Service on 08 July 2005 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

PREETI PANT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd July 2005

No. A-22011/1/2005-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri Sumantra Pal, a Junior Time Scale

level Officer of IES, as Research Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 21st July, 2005 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 29th July 2005

#### CORRIGENDUM

No. PFG (2160) Admn. I/2005.—In partial modification of this department's Notification of even number dated 8th July, 2005, the date of joining of Shri V. S. Senthil, IAS (KL: 84), Joint Secretary in Ministry of Finance, Department of Expenditure may be read as forenoon of 6th July, 2005.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 2nd June 2005

No. 9/2005 No. 6/2356/2005/HRD-I/2900.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/40/2004-CS.I (B) dated 15th February, 2005 the President is pleased to appoint Shri R. S. Bisht, Dy. Director General of Foreign Trade ad-hoc (Under Secretary CSS) in the Directorate General of Foreign Trade in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 04.03.2005.

K. CHANDRAMATHI, Jt. Director Genl. of Foreign Trade

The 2nd August 2005

No. 10/2005 No. 6/2131/97/HRD-I/2889.—On attaining the age of superannuation Shri Khem Chand, Foreign Trade Development Officer in this office has retired from Government service with effect from 31.07.2005 (AN).

K. CHANDRAMATHI, Jt. Director Genl. of Foreign Trade

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 1st August 2005

No. A-19011/8/2000-HR. II.—The President is pleased to appoint Ms. Swatantra Kaur Sekhon, IAS (GJ: 74) as Executive Director in the office of Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) an attached office of the Department of Fertilizers in the pay scale of Rs. 22400-525-24500/- in the rank of Additional Secretary with effect from 27.07.2005 (FN).

RAJESH AGRAWAL, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND  
PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 5th July 2005

No. A-19011/9/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Satwant Reddy, IAS (PB: 71) as Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals with effect from the afternoon of 5th July, 2005.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

New Delhi, the 1st August 2005

No. A-19011/3/2002-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/12/2005-EO (SM. I) dated 26.07.2005 Shri Ramesh Inder Singh, IAS (PB: 74) has relinquished the charge of the post of the Joint Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals with effect from the forenoon of 1st August, 2005 to take up his appointment as Director General, Employees State Insurance Corporation of India, Ministry of Labour and Employment.

N. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 26th July 2005

No. A-32015/1/98-Admn.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 27th April, 2005, the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' (PAs) to the post of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 01.07.2005 to 30.09.2005 or till regular candidate becomes available, whichever is earlier:—

1. Smt. Tasnim T. Kardar
2. Smt. Vibha Atri

The above mentioned promotion is being made on purely ad-hoc basis and the ad-hoc promotion will not confer on them any right for regular promotion. The Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert them to the post of Stenographer Grade 'C'.

M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 15th July 2005

No. 3/18/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 21/24/2005-CS.I dated 7th July, 2005, the President is pleased to appoint Shri Anil Subramaniam as Under Secretary [Central Secretariat Service (CSS)] on ad-hoc basis in Ministry of Mines with effect from the forenoon of 12th July, 2005.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade

indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment at any point of time without assigning any reason therefor.

T. S. BHATIA, Under Secy.

## MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 28th July 2005

No. A-19011/1/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Elangobam Robert Singh as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad-hoc basis in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 19.07.2005 (A.N.)

In terms of the Department of Personnel & Training Order No. 21/24/2005-CS.I dated 07.07.2005, the appointment will be subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

M. JAYARAMAN, Under Secy.

The 29th July 2005

No. A-22011/1/2004-Admn (Pt).—The President is pleased to permit Dr. S. N. Upadhyay, Assistant Director, Meat Food Products Order, Ministry of Food Processing Industries to retire from Government service with effect from the afternoon of 31.07.2005 on his attaining the age of superannuation. He is transferred to Pension Establishment w.e.f. afternoon of 01.08.2005.

M. JAYARAMAN, Under Secy.

No. A-19011/4/98-Admn.—The President is pleased to permit Shri R. C. Sachdeva, Deputy Secretary, Ministry of Food Processing Industries to retire from Government service with effect from the afternoon of 31.07.2005 on his attaining the age of superannuation. He is transferred to Pension Establishment w.e.f. forenoon of 01.08.2005.

M. JAYARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &  
PUBLIC DISTRIBUTION

## (DEPARTMENT OF FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 29th July 2005

No. A-12022/1/2005-Estt.—The President is pleased to extend the adhoc appointment of Shri P. K. Sardar, Director in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as

Chief Director in the same organisation in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- w.e.f. 01.08.2005 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

M. MONIRUZZAMAN, Under Secy.

(DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS AND FATS)

New Delhi-110003, the 27th July 2005

No. A-12011/1/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Yadav, Development Officer in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as Assistant Director on ad hoc basis in the same organisation in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 26.07.2005 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. K. TEOTIA, Dy. Director (Admn.)

No. A-12011/1/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri H. N. Bhargava, Development Officer in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as Assistant Director on ad hoc basis in the same organisation in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 26.07.2005 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. K. TEOTIA, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 21st July 2005

No. A-01/14/2001-Admn. I(A).—The President is pleased to appoint the following Scientist 'B' as Scientist 'C' on their in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 1st July, 2005 and until further orders:—

1. Shri Prasanta Mali
2. Dr. H. B. Singh
3. Smt. Indu Bala Puri
4. Shri S. K. Agarwal
5. Ms. Rita Gupta
6. Shri B. K. Tyagi
7. Dr. Naveen Vasishta

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A-01/14/2001-Admn. I(A).—The President is pleased to appoint Smt. Namita Gupta, Scientist 'D' as Scientist 'E'

on her in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 1st July, 2005 and until further orders.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

No. A-01/14/2001-Admn. I(A).—The President is pleased to appoint Shri S. S. Kohli, Scientist 'D' as Scientist 'F' on his in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000/- in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 1st July, 2005 and until further orders.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 26th July, 2005

No. A-19015/01/2003-Admn. I(A).—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. S. Nathan, Scientist 'B' with effect from the 15th July, 2005 (FN).

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 27th July, 2005

No. A-19013/02/2005/Admn. I(A).—The President is pleased to appoint Dr. V. C. Goyal, Scientist 'EI', National Institute of Hydrology, Roorkee as Scientist 'F' in the Department of Science & Technology in the Scale of pay of Rs. 16400-450-20000/- on deputation basis w.e.f. 26th July, 2005 (FN) for a period of one year or until regular candidate joins on repatriation from deputation or until further orders whichever is earlier. His appointment will be governed in accordance with the instructions contained in the Department of Personnel & Training's O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05-01-1994 as amended from time to time.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 13th July 2005

No. A-32013/8/2005-Estt. I.—Consequent upon her promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS. I dated 7th July, 2005, the President is pleased to appoint Ms. Kamla Garg, Section Officer of the cadre of Ministry of Health & Family Welfare, as Under Secretary in the Department of Health & Family Welfare, purely on adhoc basis, w.e.f. the forenoon of 13th July, 2005 and until further orders. The ad hoc promotion is subject to following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion

in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.

- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

H. R. JOSHI, Dy. Secy.

New Delhi, the 28th July 2005

No. A-46011/15/2005-CHS II.—Consequent on retirement on attaining the age of superannuation Dr. B. C. Mishra an SAG level officers in General Duty Medical Officer Sub Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Additional Director CIP, Ranchi w.e.f. 31st March, 2005 (A.N.).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 22nd July, 2005

No. 27-2588/2005-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, IAS (MH: 88) as Director in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 19-07-2005 for the balance period of his central tenure i.e. upto 08-06-2008 or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 1st August 2005

No. 19011/70/2005-E.V. (Vol. II).—Dr. Suraj Bhan, Additional Commissioner (NRM/RFS) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Agriculture and Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.07.2005, on attaining the age of superannuation.

K. D. UPRETI, Under Secy.

No. 19011/44/2005- E.V.—Shri Bhim Sen, an NFSG officer of Indian Statistical Service (ISS) and presently working as Director (Agriculture Census) (Rs. 14,300-400-18,300) in the Department of Agriculture and Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.07.2005 on attaining the age of superannuation.

K. D. UPRETI, Under Secy.

No. 19011/45/2005- E.V.—Shri D. Amarnath, a Senior Administrative Grade (SAG) officer of Indian Economic Service (IES) and presently working as Economic Adviser (Marketing) in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in

the Department of Agriculture and Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.07.2005 on attaining the age of superannuation.

K. D. UPRETI, Under Secy.

#### DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 26th July 2005

No. A-19025/62/80-A. I.—On attaining the age of superannuation, Shri M. Ratnakar, Marketing Officer (Group-III), Directorate of Marketing & Inspection, Regional Office, Hyderabad has retired from Government Service with effect from 30th June, 2005 (Afternoon).

A. K. CHOPRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY)

RAJIV GANDHI NATIONAL DRINKING WATER MISSION

New Delhi-110003, the 21st July 2005

No. A-11013/18/2003-T.M. I.—With the approval of the competent authority, the President of India is pleased to extend the period of ad hoc promotion of Shri Kamal Mazumdar, Assistant Adviser (PHE) to the post of Deputy Adviser (PHE) in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- with effect from 14.07.2005 for a period of 6 months or selection of a suitable candidate by the UPSC on regular basis, whichever event takes place earlier or until further orders.

Y. K. SOOD, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th July 2005

No. 2-5/2005-Admn (CHD)/D-II(L).— President is pleased to appoint Smt. Hem Lata, Asstt. Director of Central Hindi Directorate to the post of Deputy Director (Language) in the same office in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the date of assumption of charge of the post by her.

HEM CHAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 13th July 2005

No. PF/A/46-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 21/24/2005-CS. I dated 7th July, 2005 the President is pleased to appoint Shri Anant Kishore Saran, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) of Cadre Ministry of Communications & IT,



Department of Telecommunications to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Youth Affairs & Sports, w.e.f. 11.07.2005 (forenoon) in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

R. N. SHARMA, Dt. Secretary

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 22nd July 2005

No. A-12026/2/95-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. S. P. Shukla, an Officer of the Central Secretariat Official Language Service as Assistant Director (Official Language) in the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- (Group 'B'. Gazetted) with effect from the forenoon of 11.07.2005.

2. The above appointment is made in accordance with the Department of Official Language's OM No. 5/16/2004-OL (S) dated 31.03.2005.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, 110001, the 25th April 2005

No. A-32014/6/2004-Admn. II/Admn. I.—The President is pleased to permit Shri V. K. Nayar, Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Private Secretary (Stenographer Grade 'A&B' (Merged)) on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Central Secretariat Stenographer Service cadre of Department of Telecommunications for a period of 3 months w.e.f. 07-04-2005 to 06-07-2005 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The above officiation is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary (Stenographer Grade 'A&B' (Merged)) Grade of CSSS.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

The 29th April 2005

No. PF-2791/Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri Padam Singh, Sr. Principal Private

Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2005.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 13th May 2005

No. A-32014/12/2001-Admn. I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers Grade of CSS for the year 2001 against Seniority Quota and nomination to this Department by DOP&T vide their O. M. No. 5/28/2002-CS. I, dated the 28th March, 2005, the President is pleased to appoint Shri O. P. Verma, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, as Section Officer in the Central Secretariat Service cadre of the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. the forenoon of 6th May, 2005.

2. Shri O. P. Verma shall be on trial for a period of two years.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 16th May, 2005

No. A-32014/15/2001-Admn. II/Admn. I.—Consequent upon the inclusion in the Select List (Seniority Quota) of Grade Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS cadre of Department of Telecommunications for the year 2001, the President is pleased to appoint Shri Giri Raj Kumar, Stenographer Grade 'C' borne on the CSSS cadre of this Department as Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the same Department in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- with effect from forenoon of 25.04.2005 and until further orders.

2. The officer will be on trail for a period of two years.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy (Admn. I)

The 25th May 2005

#### CORRIGENDUM

No. A-32014/15/2001-Admn. II/Admn. I.—In this office Notification No. A-32014/15/2001-Admn. II/Admn. I dated 16.05.2005, the name of official Shri Giri Raj Kumar may be read as Shri G. Raj Kumar.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy (Admn. I)

No. A-33022/1/2004-Admn. I.—On completion of his extended central deputation tenure on 31.03.2005 [original tenure 09.08.1999—08.08.2004 plus extension

on account of undergoing the 30th Advanced Professional Programme in Public Administration at the Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi from 01.07.2004—31.03.2005], Shri Anil Kumar, Joint Secretary is sanctioned earned leave for fifty four (54) days w.e.f. 1st April, 2005 to 24th May, 2005 in terms of DOPT's O. M. No. 27(30)-EO/87 (SM), dated 20.05.1987. Shri Anil Kumar shall stand relieved of his duties in this Department with effect from 25.05.2005 (F/N).

On expiry of leave, Shri Anil Kumar, IAS (NG :76) shall report to the Chief Secretary to the Government of Nagaland for further posting.

This notification supersedes the earlier notification of even number dated 6th May, 2005.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 29th April 2005

No. A-32014/1/2004-Admn. I.—The President is pleased to permit the following Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to officiate as Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)} on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in the cadre of Department of Telecommunications for a period of 3 months as indicated against each or till the availability of regular Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)} or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of the Officer	Period
1.	Sh. R. D. Chhadaguli	01.04.2005 to 30.06.2005
2.	Sh. B. Venugopala Rao	08.03.2005 to 30.06.2005
3.	Sh. S. Anbarasan	08.03.2005 to 30.06.2005
4.	Sh. Gopi Chand	08.03.2005 to 30.06.2005
5.	Smt. Veena Verma	08.03.2005 to 30.06.2005
6.	Sh. R. K. Sharma	08.03.2005 to 30.06.2005
7.	Sh. Vikram Solia	08.03.2005 to 30.06.2005
8.	Smt. Sunita Sidhu	08.03.2005 to 30.06.2005

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the Officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)}.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy (Admn. I)

The 06th June 2005

No. A-32014/6/2004-Admn. II/Admn. I.—The President is pleased to permit Smt. Sabita Mathur, Stenographer

Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)} on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in the Central Secretariat Stenographer Service cadre of Department of Telecommunications for a period of 3 months w.e.f. 04.06.2005 to 03.09.2005 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The above officiation is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy (Admn. I)

New Delhi-110001, the 24th June 2005

No. 41-06/2001-Admn. I/IV.—The President is pleased to extend the period of foreign service deputation of Shri Dinabandhu Das, Assistant Wireless Adviser, Wireless Planning & Coordination Wing, Department of Telecom with the Qatar Telecom. Doha, Qatar as Engineer, Frequency Management from 01.07.2005 to 30.06.2007, in continuation of the period mentioned in the notifications of even number dated 20.06.2001 and 21.05.2003.

2. The period of deputation mentioned in this office order dated 25.09.2004 stands modified accordingly. All other terms and conditions of the deputation shall remain unchanged.

P. K. RAGHURAM, Under Secy. (Admn. IV)

New Delhi-110001, the 1st July 2005

No. 1-4/2002-Admn. I (Pt.).—The President is pleased to appoint Shri Shantanu Consul, IAS (KN: 74), as Administrator, Universal Service Obligation Fund, Department of Telecommunications in the rank of Additional Secretary with effect from the forenoon of 1st July, 2005.

L. S. NEGI, Dy. Secy.

No. 1-18/2005-Admn. I.—The President is pleased to appoint Dr. J. Sreedhara Sarma, IAS (AP: 1971), as Secretary, Department of Telecommunications and Chairman, Telecom Commission with effect from the forenoon of 1st July, 2005.

L. S. NEGI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 26th July 2005

No. 1-3/2004-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 21/24/2005-CS, I dated

07.07.2005, the President is pleased to appoint Shri Mahendra Kumar, Section Officer in the cadre of Department of Commerce as Assistant Director General (Grade-I of CSS) on ad-hoc basis until further orders in Department of Posts in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15200/-, with effect from 19.07.2005.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

The 28th July 2005

No. 39-1/94-Admn.—The President is pleased to permit Smt. Anita Kumari, Stenographer Grade 'C' to officiate as Private Secretary on ad-hoc basis in the cadre of Department of Posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- for the period from 01.07.2005 to 30.09.2005 or till regular candidate become available, whichever is earlier.

2. The promotion being purely on ad-hoc basis, it will not confer on the appointee any right for regular promotion or seniority in the grade.

3. This issues with the approval of Department of Personnel & Training.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 21st July 2005

No. A-12022/3/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Sushila Ananth a regular Section Officer on the CSS cadre of the Ministry of Home Affairs, to the post of Under Secretary in the Ministry of Civil Aviation on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the forenoon of 12th July, 2005.

2. The ad-hoc promotion of Smt. Sushila Ananth shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim in the Grade-I.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

#### MINISTRY OF RAILWAYS

##### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 29th July 2005

No. E(GP)/2001/1/49.—The President is pleased to approve of Shri Gyan Prakash (SC), a Group 'B' Officer of Civil Engineering Department of Northern Railway, now working in North Central Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 14th January, 2005 on that Railway, against the panel for the year 2002-2003.

M. K. AGARWAL, Secy./Railway Board

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

##### (DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 20th July 2005

No. A-22011/2/2005-E-I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Aggarwal, Section Officer of CSS as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) on purely ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 14.07.2005 (F.N.) until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

B. N. MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 22nd July 2005

No. A-19012/1/2005-E. I.—The President is pleased to appoint Shri Kanwar Singh Yadav, [Central Secretariat Official Language Service] as Assistant Director (Official Language) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- in Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport & Highways) w.e.f. 04.07.2005 (FN).

A. K. AGGARWAL, Under Secy.